



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष-0771-2262825, मोबाइल नं. 94242-28493 (कार्यालय)

(गोपनीय)

प्रेषक :

समन्वयक

केंद्रीय मूल्यांकन इकाई

वार्षिक परीक्षा, मार्च, 2018 (गोपनीय विभाग)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रति,

Dr. Kavita Thakur

Govt Coll.

Akhara

99933-19500

CODE - B-2335

BAE- 560

Date : 20/8/18

महोदय/महोदया,

नोट : पारिश्रमिक केवल मूल्यांकन कार्य का ही देय होगा ।

उपरोक्त बंडल संख्या की उत्तरपुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु आपके पास भेजी जा रही हैं, जो उत्तरपुस्तिकाएं आपके पास भेजी जा रही हैं उनकी संख्या 207 है। चूंकि मूल्यांकन कार्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषित अनिवार्य सेवा में शामिल है। अतः आपसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित लिखित उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. यदि कुल उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या में कोई भिन्नता है तो कृपया उसकी सूचना तत्काल अवोहस्ताक्षरकर्ता को अवश्य दें। साथ ही यदि आपका कोई सम्बन्धी किसी ऐसे केंद्र से वहीं परीक्षा दे रहा हो जिस केंद्र के उत्तरपुस्तिका आपको भेजी गयी है तो कृपया उस केंद्र की उत्तरपुस्तिकाओं को आप नहीं खोलेंगे तथा उसे विश्वविद्यालय को तुरंत वापस करने का कष्ट करेंगे।
2. परीक्षाफल यथाशीघ्र तथा समय सीमा में घोषित करने की दृष्टि से यह निवेदन है कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का पैकेट/बण्डल प्राप्तियों के " फाइल/काउन्टर फाइल एवं पारिश्रमिक देयक " (बण्डल पाने के एक सप्ताह के भीतर) अनिवार्य रूप से जमा करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें जिससे कि पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके।
3. कृपया इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु निवेदन है कि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन सावधानी पूर्वक करें साथ ही पर्ण/प्रतिपर्ण में अंक भरने के पश्चात् उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण प्रतिपर्ण में भरे गए अंकों का मिलान सावधानी पूर्वक करें ताकि त्रुटियों की संभावना न रहे।
4. लिखित उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य को गंभीरता से लिया जावे तथा प्रत्येक प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए गए उत्तर का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदान किया जाये।
5. मूल्यांकन करते समय 60 प्रतिशत से अधिक एवं 10 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों के लिखित उत्तर-पुस्तिका में टीप दें ताकि उनके द्वारा अधिकतम अंक प्रदान करने अथवा कम अंक प्रदान करने का कारण परिलक्षित हो। मूल्यांकन करते समय उत्तर गलत या सही होने की दशा में उत्तर में संबंधित अंकों में सही या गलत का स्पष्टतः निशान लगावें।
6. सर्वप्रथम प्राप्तियों के फॉइल तैयार करने के लिए निर्धारित कालों की पूर्ति करते हुए छात्रों के क्रमवार अनुक्रमांक दर्ज करते हुए उत्तर-पुस्तिका के आधार पर सावधानीपूर्वक प्राप्तियों के अंकों में एवं शब्दों में अंकित करें। उत्तर-पुस्तिका बण्डल में परीक्षा केंद्र द्वारा रखे गये डाकेट की सहायता से अनुपस्थित परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक भी निर्धारित स्थान में दर्ज कर लाल स्याही से अनुक्रमांक को घेरते हुए प्राप्तियों के स्थान पर अनुपस्थित (Absent) अंकित करें एक बार पर्ण (फॉइल) तैयार करने के उपरांत उत्तर-पुस्तिकाओं से मिलान करें ताकि लिखित उत्तर-पुस्तिका के प्राप्तियों एवं पर्ण में उल्लेखित अंकों में कोई त्रुटि हो तो सुधार किया जा सके। यहां उल्लेखनीय होगा कि पर्ण (फाइल) में किसी प्रकार के सुधार किये जाने पर मूल्यांकनकर्ता अपने हस्ताक्षर से निर्धारित स्थान पर अभिप्रमाणित करें।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष-0771-2262825, मोबाइल नं. 94242-28493 (कार्यालय)

(गोपनीय)

प्रेषक :

समन्वयक
केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई
वार्षिक परीक्षा, मार्च, 2018 (गोपनीय विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रति:

Dr. Kavita Thakur
Govt College Bhakhara

B-2340

CODE -
BAE- 739
Date : 27/4/18

महोदय/महोदया,

नोट : पारिश्रमिक केवल मूल्यांकन कार्य का ही देय होगा ।

उपरोक्त बंडल संख्या की उत्तरपुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु आपके पास भेजी जा रही है , जो उत्तरपुस्तिकाएं आपके पास भेजी जा रही है उनकी संख्या 222 है । चूंकि मूल्यांकन कार्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषित अनिवार्य सेवा में शामिल है । अतः आपसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है ।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित लिखित उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. यदि कुल उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या में कोई गिनतता है तो कृपया उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवश्य दें। साथ ही यदि आपका कोई सम्बन्धी किसी ऐसे केन्द्र से वहीं परीक्षा दे रहा हो जिस केन्द्र के उत्तरपुस्तिका आपको भेजी गयी है तो कृपया उस केन्द्र की उत्तरपुस्तिकाओं को आप नहीं खोलेंगे तथा उसे विश्वविद्यालय को तुरंत वापस करने का कष्ट करेंगे ।
2. परीक्षाफल यथाशीघ्र तथा समय सीमा में घोषित करने की दृष्टि से यह निवेदन है कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का पैकेट/बण्डल प्राप्तियों के " फाइल/काउन्टर फाइल एवं पारिश्रमिक देयक " (बण्डल पाने के एक सप्ताह के भीतर) अनिवार्य रूप से जमा करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें जिससे कि पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके ।
3. कृपया इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाना है. इस हेतु निवेदन है कि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन सावधानी पूर्वक करें साथ ही पर्ण/प्रतिपर्ण में अंक भरने के पश्चात् उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण प्रतिपर्ण में भरे गए अंकों का मिलान सावधानी पूर्वक करें ताकि त्रुटियों की संभावना न रहे ।
4. लिखित उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य को गंभीरता से लिया जावे तथा प्रत्येक प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए गए उत्तर का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदान किया जाये ।
5. मूल्यांकन करते समय 60 प्रतिशत से अधिक एवं 10 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों के लिखित उत्तर-पुस्तिका में टीप दें ताकि उनके द्वारा अधिकतम अंक प्रदान करने अथवा कम अंक प्रदान करने का कारण परिलक्षित हो । मूल्यांकन करते समय उत्तर गलत या सही होने की दशा में उत्तर में संबंधित अंकों में सही या गलत का स्पष्टतः निशान लगायें ।
6. सर्वप्रथम प्राप्तांक के फॉइल तैयार करने के लिए निर्धारित कालों की पूर्ति करते हुए छात्रों के क्रमवार अनुक्रमांक दर्ज करते हुए उत्तर-पुस्तिका के आधार पर सावधानीपूर्वक प्राप्तांक अंकों में एवं शब्दों में अंकित करें । उत्तर-पुस्तिका बण्डल में परीक्षा केन्द्र द्वारा रखे गये डाकेट की सहायता से अनुपस्थित परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक भी निर्धारित स्थान में दर्ज कर लाल स्याही से अनुक्रमांक को घेरते हुए प्राप्तांक के स्थान पर अनुपस्थित (Absent) अंकित करें एक बार पर्ण (फॉइल) तैयार करने के उपरांत उत्तर-पुस्तिकाओं से मिलान करें ताकि लिखित उत्तर-पुस्तिका के प्राप्तांक एवं पर्ण में उल्लेखित अंकों में कोई त्रुटि हो तो सुधार किया जा सके । यहां उल्लेखनीय होगा कि पर्ण (फाइल) में किसी प्रकार के सुधार किये जाने पर मूल्यांकनकर्ता अपने हस्ताक्षर से निर्धारित स्थान पर अभिप्रमाणित करें ।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष-0771-2262825, मोबाइल नं. 94242-28493 (कार्यालय)

(गोपनीय)

प्रेषक :

समन्वयक
केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई
वार्षिक परीक्षा, मार्च, 2018 (गोपनीय विभाग)
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

B - 2336

CODE -

BAE- 737

Date: 27/4/18

प्रति,

Dr. Kavita Thakur
Govt. College, Bhalkhara

महोदय/महोदया, 99933-19500

नोट : पारिश्रमिक केवल मूल्यांकन कार्य का ही देय होगा ।

उपरोक्त बंडल संख्या की उत्तरपुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु आपके पास भेजी जा रही है . जो उत्तरपुस्तिकाएं आपके पास भेजी जा रही है उनकी संख्या — 263 — है । चूंकि मूल्यांकन कार्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषित अनिवार्य सेवा में शामिल है । अतः आपसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है ।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित लिखित उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. यदि कुल उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या में कोई भिन्नता है तो कृपया उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवश्य दें। साथ ही यदि आपका कोई सम्बन्धी किसी ऐसे केन्द्र से वही परीक्षा दे रहा हो जिस केन्द्र के उत्तरपुस्तिका आपको भेजी गयी है तो कृपया उस केन्द्र की उत्तरपुस्तिकाओं को आप नहीं खोलेंगे तथा उसे विश्वविद्यालय को तुरंत वापस करने का कष्ट करेंगे ।
2. परीक्षाफल यथाशीघ्र तथा समय सीमा में घोषित करने की दृष्टि से यह निवेदन है कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का पैकेट/बण्डल प्राप्तियों के " फाइल/काउन्टर फाइल एवं पारिश्रमिक देयक " (बण्डल पाने के एक सप्ताह के भीतर) अनिवार्य रूप से जमा करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें जिससे कि पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके ।
3. कृपया इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाना है. इस हेतु निवेदन है कि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन सावधानी पूर्वक करें साथ ही पर्ण/प्रतिपर्ण में अंक भरने के पश्चात् उत्तरपुस्तिका एवं पर्ण प्रतिपर्ण में भरे गए अंकों का मिलान सावधानी पूर्वक करें ताकि त्रुटियों की संभावना न रहे ।
4. लिखित उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य को गंभीरता से लिया जावे तथा प्रत्येक प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए गए उत्तर का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदान किया जाये ।
5. मूल्यांकन करते समय 60 प्रतिशत से अधिक एवं 10 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों के लिखित उत्तर-पुस्तिका में टीप दें ताकि उनके द्वारा अधिकतम अंक प्रदान करने अथवा कम अंक प्रदान करने का कारण परिलक्षित हो । मूल्यांकन करते समय उत्तर गलत या सही होने की दशा में उत्तर में संबंधित अंकों में सही या गलत का स्पष्टतः निशान लगायें ।
6. सर्वप्रथम प्राप्तिक के फॉइल तैयार करने के लिए निर्धारित कालों की पूर्ति करते हुए छात्रों के क्रमवार अनुक्रमांक दर्ज करते हुए उत्तर-पुस्तिका के आधार पर सावधानीपूर्वक प्राप्तिक अंकों में एवं शब्दों में अंकित करें । उत्तर-पुस्तिका बण्डल में परीक्षा केन्द्र द्वारा रखे गये डाकेट की सहायता से अनुपस्थित परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक भी निर्धारित स्थान में दर्ज कर लाल स्याही से अनुक्रमांक को घेरते हुए प्राप्तिक के स्थान पर अनुपस्थित (Absent) अंकित करें एक बार पर्ण (फॉइल) तैयार करने के उपरांत उत्तर-पुस्तिकाओं से मिलान करें ताकि लिखित उत्तर-पुस्तिका के प्राप्तिक एवं पर्ण में उल्लेखित अंकों में कोई त्रुटि हो तो सुधार किया जा सके । यहाँ उल्लेखनीय होगा कि पर्ण (फाइल) में किसी प्रकार के सुधार किये जाने पर मूल्यांकनकर्ता अपने हस्ताक्षर से निर्धारित स्थान पर अभिप्रमाणित करें ।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष-0771-2262825, मोबाइल नं.: 98261-97413 (कार्यालय)

(गोपनीय)

समन्वयक

केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई

मुख्य परीक्षा, मार्च 2019 (गोपनीय विभाग)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रति,

Dr. Kavita Varshney
Govt College

CODE - C - 2333

LGA - 123/124

Date: 05.04.19

Bhakhara

वार्षिक परीक्षा यू.जी. एवं पी.जी. 15/- प्रति कापी पारिश्रमिक देय होगा

महोदय/महोदय,

उपरोक्त बंडल संख्या की उत्तरपुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु आपके पास भेजी जा रही है, जो उत्तरपुस्तिकाएं आपके पास भेजी जा रही है उनकी संख्या 258+136 है। चूंकि मूल्यांकन कार्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषित अनिवार्य सेवा में शामिल है। अतः आपसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है। 258+136 विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित लिखित उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. यदि कुल उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या में कोई गिनती है तो कृपया उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवश्य दें। साथ ही यदि आपका कोई सम्बन्धी किसी ऐसे केन्द्र से परीक्षा दे रहा हो जिस केन्द्र की उत्तरपुस्तिका आपको भेजी गयी है तो कृपया उस केन्द्र की उत्तरपुस्तिकाओं को आप नहीं खोलेंगे तथा उसे विश्वविद्यालय को तुरंत वापस करने का कष्ट करेंगे।
2. परीक्षाफल यथाशीघ्र तथा समय सीमा में घोषित करने की दृष्टि से यह निवेदन है कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का पैकेट/बण्डल के मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका के साथ अलग से पर्ण/प्रतिपर्ण नहीं भरना है। OMR ओ.एम.आर. शीट के पहले एवं दूसरे भाग को मूल्यांकनकर्ता नीला अथवा काला पाइंट पेन द्वारा ही भरेंगे। उत्तर-पुस्तिकाओं के अंदर के पृष्ठ पर लाल स्याही से ही मूल्यांकन किया जाना है। पारिश्रमिक देयक बण्डल के साथ ही अलग से अनिवार्य रूप से जमा करें जिससे कि पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके। पारिश्रमिक देयक नये दर से लागू होगा।
3. कृपया इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु निवेदन है कि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन सावधानी पूर्वक करें।
4. लिखित उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य को गंभीरता से लिया जाये तथा प्रत्येक प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए गए उत्तर का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदान किया जाये।
5. मूल्यांकन करते समय 60 प्रतिशत से अधिक एवं 35 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों के लिखित उत्तर-पुस्तिका में टीप दें ताकि उनके द्वारा अधिकतम अंक प्रदान करने अथवा कम अंक प्रदान करने का कारण परिलक्षित हो। मूल्यांकन करते समय उत्तर गलत या सही होने की दशा में उत्तर में संबंधित अंकों में सही या गलत का स्पष्टतः निशान लगावें।
6. मूल्यांकन पश्चात् मानदेय/पारिश्रमिक प्रदाय किये जाने वाले प्रपत्र को पूर्णतः भली प्रकार से भरें एवं मूल्यांकन केन्द्र में उत्तर-पुस्तिका बण्डल के साथ अलग से जमा करें। अपने मानदेय प्रपत्र में परीक्षा का नाम/वर्ष, अपना नाम, पता, बैंक खाता क्रमांक/बैंक का नाम/शाखा का नाम/आई.एफ.एस.सी. कोड/पैन नंबर, प्रश्न-पत्र कोड, मूल्यांकित की गई उत्तर-पुस्तिका की कुल संख्या हस्ताक्षर के साथ दिनांक अवश्य अंकित करें। जिससे की परीक्षण कर शीघ्र भुगतान किया जा सके।

नोट : 1. मूल्यांकन नहीं करने की स्थिति में स्पष्टः कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

2. पर्ण/प्रतिपर्ण का उपयोग अलग से नहीं किया जाना है।

संपर्क : समन्वयक मो. नं.: 9826197413

सहा. समन्वयक मो. नं. 9826167427, 9891409181,

सहा. समन्वयक मो. नं. 9977889006, 9425511661,

समन्वयक/सहा.समन्वयक
के.मु.ई. मुख्य परीक्षा, मार्च, 2019

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष-0771-2262825, मोबाइल नं.: 98261-97413 (कार्यालय)

(गोपनीय)

समन्वयक

केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई

मुख्य परीक्षा, मार्च 2019 (गोपनीय विभाग)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Dr. Kavita Vanshwar

Govt Coll.

BHAKHARA

CODE - C-2334

LGA- 378

Date: 17.04.19

वार्षिक परीक्षा यू.जी. एवं पी.जी. 15/- प्रति कापी पारिश्रमिक देय होगा

महोदय/महोदया,

उपरोक्त बंडल संख्या की उत्तरपुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु आपके पास भेजी जा रही है, जो उत्तरपुस्तिकाएं आपके पास भेजी जा रही है उनकी संख्या 964 है। चूंकि मूल्यांकन कार्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषित अनिवार्य सेवा में शामिल है। अतः आपसे सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित लिखित उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. यदि कुल उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या में कोई भिन्नता है तो कृपया उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवश्य दें, साथ ही यदि आपका कोई सम्बन्धी किसी ऐसे केन्द्र से परीक्षा दे रहा हो जिस केन्द्र की उत्तरपुस्तिका आपको भेजी गयी है तो कृपया उस केन्द्र की उत्तरपुस्तिकाओं को आप नहीं खोलेंगे तथा उसे विश्वविद्यालय को तुरंत वापस करने का कष्ट करेंगे।
2. परीक्षाफल यथाशीघ्र तथा समय सीमा में घोषित करने की दृष्टि से यह निवेदन है कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का पैकेट/बण्डल के मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका के साथ अलग से पर्ण/प्रतिपर्ण नहीं भरना है। OMR ओ.एम.आर. शीट के पहले एवं दूसरे भाग को मूल्यांकनकर्ता नीला अथवा काला पाइंट पेन द्वारा ही भरेंगे। उत्तर-पुस्तिकाओं के अंदर के पृष्ठ पर लाल स्याही से ही मूल्यांकन किया जाना है। पारिश्रमिक देयक बण्डल के साथ ही अलग से अनिवार्य रूप से जमा करें जिससे कि पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सके। पारिश्रमिक देयक नये दर से लागू होगा।
3. कृपया इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की छाया प्रति परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु निवेदन है कि उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन सावधानी पूर्वक करें।
4. लिखित उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन कार्य को गंभीरता से लिया जाये तथा प्रत्येक प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों द्वारा किए गए उत्तर का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करते हुए अंक प्रदान किया जाये।
5. मूल्यांकन करते समय 60 प्रतिशत से अधिक एवं 35 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों के लिखित उत्तर-पुस्तिका में टीप दें ताकि उनके द्वारा अधिकतम अंक प्रदान करने अथवा कम अंक प्रदान करने का कारण परिलक्षित हो। मूल्यांकन करते समय उत्तर गलत या सही होने की दशा में उत्तर में संबंधित अंकों में सही या गलत का स्पष्ट निशान लगावें।
6. मूल्यांकन पश्चात् मानदेय/पारिश्रमिक प्रदाय किये जाने वाले प्रपत्र को पूर्णतः भली प्रकार से भरें एवं मूल्यांकन केन्द्र में उत्तर-पुस्तिका बण्डल के साथ अलग से जमा करें। अपने मानदेय प्रपत्र में परीक्षा का नाम/वर्ष, अपना नाम, पता, बैंक खाता क्रमांक/बैंक का नाम/शाखा का नाम/आई.एफ.एस.सी. कोड/पैन नंबर, प्रश्न-पत्र कोड, मूल्यांकित की गई उत्तर-पुस्तिका की कुल संख्या हस्ताक्षर के साथ दिनांक अवश्य अंकित करें। जिससे की परीक्षण कर शीघ्र भुगतान किया जा सके।

नोट : 1. मूल्यांकन नहीं करने की स्थिति में स्पष्ट: कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

2. पर्ण/प्रतिपर्ण का उपयोग अलग से नहीं किया जाना है।

संपर्क : समन्वयक मो. नं.: 9826197413

सहा. समन्वयक मो. नं.9826167427, 9691409181,

सहा. समन्वयक मो. नं.9977889006, 9425511661,

समन्वयक/सहा.समन्वयक

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR(C.G.)

Tel. No, 2262825

Form, The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Dr. Kavita Vaishnav
Bhakhara

No. Ex/C ----- Dated, Raipur the 26/3/18

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

M.A. Second Sem. Hindi, Group - May - June - 2018
Paper अर्थशास्त्र (अर्थशास्त्र) carrying 80 marks
at the next Ex. Examination 2018

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C-3) on or before A WEEK where there you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers in accordance with enclosed syllabus. One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.Ed., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharma, M. Pharma, B.Voc., B.P. Ed/M.P. Ed., LL. M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent (herewith, within 07 days of the date of this letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondences in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following :-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Appointment Form relating to contribution to Teachers Benevolent Fund :-

The total remuneration for all the examinations which a person will be entitled to set in a year shall not exceeds Rs. 1500/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.1500/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

[Signature]

Dy. Regr / O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures :-

- Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same
 - Instructions for paper setters
 - Syllabus prescribed for the paper
 - Question paper for the last year
 - Blank papers for writing the question paper.
 - Cover K & B for sending the question paper
 - Declaration form.
- Note :- Please refer to the instructions here in before you set the paper

CONFIDENTIAL

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C. G.)

Tel. No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Dr. Kavita Vaishnav
Bhakhara

No. Ex/O _____ Dated, Raipur the 22/9/21

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

B. A Part III Hindi Literature 197474 नियंत्रित (C-1)

Paper First carrying 75 marks
at the next Supply Examination 20-21

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C-3) on or before A WEEK where there you are willing to accept the above appointment If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment It is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/My/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version is all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.B.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharma, M.Pharma, B.Voc., B.P. Ed/M.P. Ed, LL.M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly Insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following :-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 2 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent Fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Signature

Dy. Registr. (O. S. D. (Conf.))
for Registrar

Enclosures :-

- 1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for retaining the same
 - 2. Instructions for paper setters
 - 3. Syllabus prescribed for the Paper
 - 4. Question paper of the last year Exam.
 - 5. Blank papers for writing the question papers
 - 6. Cover A & B for sending the question paper
 - 7. Declaration form.
- ... please refer to the instructions here to before you set the paper

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Tel. No. 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Ky. Kavita Vaishnav
Bhalkhor?No. Ex/C ----- Dated, Raipur the 30/1/19

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -----

M.A. (Pro.) Hindi - Annual Exam 2019Paper अनुक्ति हिन्दी काव्य कृति ----- 100 marks
at the next ----- Annual Examination 2019

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C-3) on or before A WEEK where/where you are willing to accept the above appointment if no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed syllabus. One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B. Com., B. Sc., B.C.A., B. Ed., LL. B., B.A., LL.B., B.A., M. Com., M.B.A., M. Ed., B. Pharma, M. Pharma, B. Voc., B. P. Ed./M.P. Ed., LL. M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent herewith, within 07 days of the date of this letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONFACIO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondences in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following:-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned on acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 1500/- in case your remuneration for action as an examiner exceeds Rs. 1500/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Rel

Dy. Regr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures :-

- | | |
|---|---|
| 1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same | 3. Syllabus prescribed for the paper |
| 2. Instructions for paper setters | 5. Blank papers for writing the question paper. |
| 4. Question paper for the last year | 7. Debaration form. |
| 6. Cover S & B for sending the question paper | |

Note :- Please refer to the instructions here to before you set the paper

BILASPUR VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

TO: Dr. Pradip Jangade
com. Dept.
Govt College Udaipur

Bilaspur, Dated 26/11/2015URGENTDear Sir/ Madam, SARGUJA

I am directed to inform you that Bilaspur Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner/one of the examiners for evaluation of answer scripts of the BUS SEMESTER Paper Examination 2015-16 carrying 75 marks of the Branch

- The written part of the examination will commence on Dec 1 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form (C-3) on or before..... in case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the paper sent here with may please be returned with your reply.
- It is requested that two question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus (For those who are requested to set Two Question Papers) One of the question paper will be used by the Vishwavidyalaya for the Nov/Dec and the other for March/April Examination under the semester system Examination or one for the March/April and other for supplementary Examinations Under the Annual system of the Examination of Graduation Examination if provided for. **The question paper should not be marked as Annual or Supplementary by the paper setter.** It may kindly be noted that English version or each question is to be given immediately below the Hindi Version in all subjects except language paper i.e. Hindi, English, Urdu, Sanskrit for all the Examination and papers of M.Sc., B.E. & Medical Examination.
- The question papers are to be set in strict compliance with the instructions sent herewith and be delivered in person or sent through **Registered Post Insured for 100/-** in double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the ends **within 15 days** of this letter to the undersigned by the name.
- You are requested to keep your appointment **STRICTLY CONFIDENTIAL** and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

NOTE : Special attention is invited to the following :-

- If son/daughter/wife/husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at the examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned and return the papers sent here with.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting evaluation of answer scripts may please be seen on Remuneration Bill in the appendix attached.
- The total remuneration for all the examination which a person will be entitled to get in a year shall not exceed **Rs. 30,000/-** in case your remuneration for acting as an examiner exceed **Rs. 30,000/-** the excess amount shall be credited in the University Account.

Yours Faithfully

Pradip Jangade
 Controller of Examinations

Enclosures :-

- Form of acceptance (C-3) with a cover marked (Acceptance)
- Instruction for paper setters and appendix for the remuneration.
- Syllabus prescribed for the paper.
- Question paper of the last year.
- Cover for sending the question paper.
- Declaration form.

NOTE :- Please refer to the instruction attached herewith before you set the paper.



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ. ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित

Phone: 07774-222789,90

Fax: 07774-222791

E-Mail ID: - registrarsua@yahoo.co.in

परीक्षक का नियुक्ति पत्र (उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,

Dr. Pradeep Kumar Jangde
Dept. of Commerce
G.N.V. College,

प्रिय परीक्षक महोदय, Udaipur
उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक F-238/06 की 215 उत्तरपुस्तिकाओं के 01 बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएं देने पर तगद भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का अलग से प्रस्तुत करें।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

- मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand nephew, Grand niece, Aunt, First cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc
- मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
- यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
- पारिश्रमिक देयक के साथ उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक देयक का भुगतान किया जावेगा।
- प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्रश्नों का अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजना/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने पर इसका स्पष्ट अंकन उस केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आंबटित किये गये हैं ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्रश्नांक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
- देवाय किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
- प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
- पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः विम्वेदक होंगे।
- मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयवधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
- अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
- सम्मत परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
- किसी तका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 99071-79779 में कुलसचिव या 94246-68364 में विशेष कर्तव्यवाहक अधिकारी (गोपनीय) से सम्पर्क करें।

कुलसचिव/अध्यक्षक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष क्रमांक: विश्वविद्यालय
कार्यालय : 07774-222790
निवास : 07774-231973
फैक्स : 07774-222790

प्रेषक:

कुलसचिव
सरगुजा विश्वविद्यालय,
अम्बिकापुर (छ.ग.)

17 JAN 2015

अनुक्रमांक.....कोड नं. B-333

सेवा में,

Shri Pradeep Jangde
Dept. of Commerce
Govt. College, Udaipur (U.G.)

महोदय/महोदया

1. सूचित करते हुए हर्ष है कि आप इस विश्वविद्यालय की सन् 2015..... की परीक्षा के प्राश्निक एवं परीक्षक नियुक्त हुए हैं। निर्मेय प्रश्नपत्र का विवरण निम्नलिखित है।

(क) परीक्षा का नाम B.Com. Part III Examination - 2015
(ख) विषय का नाम Group - (D) Money Banking & Insurance
(ग) प्रश्नपत्र Second - Money & Banking System
(घ) समय-तीन घण्टे
(ङ) पूर्णांक 75 न्यूनतम उत्तीर्णांक 25

2. (अ) इस प्रश्नपत्र के लिए दो/तीन प्राश्निक नियुक्त किये जाने हैं, जिनमें से आप एक हैं। आपको एक/दो प्रश्नपत्र की संरचना संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार करनी है। कृपया प्रश्नपत्र के अन्दर अथवा लिफाफे के ऊपर वार्षिक, पूरक अथवा द्वितीय परीक्षा आदि चिन्हित न करें।

नियुक्ति पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर संलग्न प्रश्नपत्र द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति की स्वीकृति भेजकर अनुग्रहीत करें। यदि यह नियुक्ति स्वीकार करने में आप किसी कारणवश असमर्थ हों तो कृपया समस्त संलग्न सामग्री अपने अस्वीकृत पत्र के साथ अविलम्ब वापस भेजने का कष्ट करें। इस पत्र की तिथि से पन्द्रह दिनों तक आपकी ओर से यदि कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जायेगा कि यह आपको स्वीकार नहीं है तथा वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जायेगी।

4. परीक्षा के भाषेतर विषयों के प्रश्नपत्र हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में निर्मित किये जाने हैं। अतः आप प्रत्येक प्रश्न हिन्दी में लिखकर उसके नीचे अंग्रेजी में अनुवाद देने की कृपा करें। हिन्दी प्रश्नों में हिन्दी पारिभाषित शब्द के सामने कोष्ठकों में अंग्रेजी पारिभाषित शब्द देवनागरी लिपि में दिये जायें।
5. भाषेतर विषयों के परीक्षकों को देवनागरी लिपि तथा हिन्दी भाषा में लिखी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करना होगा। आपकी नियुक्ति इस विश्वास पर की गई है कि आप ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण कर सकेंगे।
6. यदि आपको परीक्षक बनना स्वीकार है तो कृपया उक्त प्रश्नपत्र की संरचना करने का कष्ट करें। उसे विश्वविद्यालय से प्राप्त मोटे संलग्न प्रच्छद (लिफाफे) में बन्द करके चपड़े (लाख) की दुहरी सील लगायें फिर उसे स्वयं लाकर मुझे देने की कृपा करें अथवा बीमा पंजीकृत डाक से कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.) के पते पर भेज दें। प्रश्नपत्र की मूल प्रति भेजी जाय। प्रच्छद (लिफाफे) संलग्न हैं। किसी प्रश्नपत्र की कार्यालयीन प्रति न भेजी जाय और न ही अपने पास रखें।

(क.प.उ.)



सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ. ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in

Phone:- 07774-222789,90

Fax:- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

प्रति,


Dr. P. K. Singh
Sectt. of Examinations
Sarvagya College, Ambikapur

प्रिय परीक्षक महोदय,

उत्तुक्त विषय में आपको कोड क्रमांक D-314/01 की 176 उतरपुस्तिकाओं के 16 बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उतरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उतरपुस्तिकाएँ एक साथ एक दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उतरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पूर्ण/प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समय पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उतरपुस्तिकाएँ देने पर नगद भुगतान किया जावेगा। कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें।

उत्तुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

- मूल्यांकन हेतु प्राप्त उतर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस तथ्य की सूचना देते हुए उतरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है
The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister, Niece, Grand nephew, Grand niece, Aunt, First cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc.
- मूल्यांकन हेतु प्राप्त उतरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उतर पुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
- यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
- पारिष्पिक टेबल के साथ उतरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिष्पिक टेबल का भुगतान किया जावेगा।
- प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्रामांकों का अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उतरपुस्तिका को जमा कर एक ही बण्डल में बांध कर भेजवाये/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उतर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उतरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने या इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों को स्वयं के अनुक्रमांक आबंटित किये गये हों ऐसी उतरपुस्तिका के प्रामांकों केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि उतरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
- दृष्टा किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
- प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमांकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमांकों को डाफेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
- पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उतरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गौपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
- मूल्यांकित उतरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिष्पिक रोकने का निर्णय लिया जा सकता है।
- अनुचित साधन सम्बन्धी उतरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उतरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
- समस्त परीक्षाओं के लिए पारिष्पिक की अधिकतम सीमा अध्या.ग द्वारा निर्धारित होगी।
- किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 99071-79779 में कुलसचिव या 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्व अधिकारी (गौपनीय) से सम्पर्क करें।


कुलसचिव/समन्वयक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(छ. ग.) विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 18/2008 द्वारा स्थापित)

E-Mail ID:- registrarsua@yahoo.co.in

Phone:- 07774-222789,90

Fax:- 07774-222791

परीक्षक का नियुक्ति पत्र

(उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु)

श्रुति,

Dr. Pradeep Kumar Jangde
Asstt. Prof. Commerce
Govt. R.D.S. College, Udaipur

प्रिय परीक्षक महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपको कोड क्रमांक D-298/01 की 211 उत्तरपुस्तिकाओं के 01
बण्डल/पैकेट/लिफाफे मूल्यांकन हेतु प्रदान किये जा रहे हैं। कृपया उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ
एक साथ सात दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करने की व्यवस्था करें। पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित
उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय। प्रत्येक कोड का पूर्ण/
प्रतिपूर्ण तथा बण्डल अलग-अलग हो। समस्त पर मूल्यांकन कर पूर्ण/प्रतिपूर्ण एवं मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाएँ देने पर नगद भुगतान किया जावेगा।
कृपया प्रश्नपत्र सेटिंग का बिल अलग से प्रस्तुत करें।

उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन हेतु निर्देश:-

मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं की परीक्षा में यदि आपका कोई निकट संबंधी अथवा आश्रित सम्मिलित हुआ है तो कृपया इस
तथ्य की सूचना देते हुए उत्तरपुस्तिका के बण्डल तुरन्त वापस कर दें। निकट संबंधी का आशय निम्नानुसार है

The term close relation includes Wife, Husband, Son, Daughter, Grand Son, Grand Daughter, Brother, Sister,
Niece, Grand nephew, Grand niece, Aunt, First cousin, Son in law, Daughter in law, Brother in law etc.

1. मूल्यांकन हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के अन्दर उत्तर पुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण एक साथ आवश्यक
रूप से विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
2. यदि बण्डल में ऐसी पुस्तिका भी हो जो आपके विषय, प्रश्नपत्र से सम्बन्धित न हो तो उसे तत्काल विश्वविद्यालय को अलग से पत्र के
साथ वापस करने की कार्यवाही करें।
3. पारिश्रमिक देयक के साथ उत्तरपुस्तिका एवं पूर्ण/प्रतिपूर्ण विश्वविद्यालय में जमा की रसीद (फोटो प्रति) संलग्न करने पर ही पारिश्रमिक
देयक का भुगतान किया जावेगा।
4. प्रत्येक केन्द्र के परीक्षार्थियों के प्रामाणिकों का अलग-अलग पूर्ण/प्रतिपूर्ण में किया जाय एवं इसी क्रम में उत्तरपुस्तिका को जमा कर एक
ही बण्डल में बांध कर भेजवायें/पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल के ऊपर प्रश्नपत्र का कोड क्रमांक
तथा परीक्षक का नाम व पता आवश्यक रूप से लिखा जाय।
5. कृपया यह सुनिश्चित करें कि जितनी उत्तरपुस्तिकाएँ जांचने हेतु मिली हैं, उनके अंक पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ा दिये गये हैं। कम अधिक होने
पर इसका स्पष्ट अंकन उक्त केन्द्र के पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अंत में किया जाय। यह भी सम्भावना है कि कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षार्थियों
की स्वयं के अनुक्रमांक आंबद्धित किये गये हों ऐसी उत्तरपुस्तिका के प्रामाणिक केन्द्रवार अन्त में अंकित करें।
6. कृपया यह सुनिश्चित करें कि उत्तरपुस्तिकाओं में अनुक्रमांक सही एवं क्रमवार ढंग से पूर्ण/प्रतिपूर्ण में चढ़ाये गये हैं।
7. तैयार किये गये पूर्ण/प्रतिपूर्ण के अन्त में परीक्षक के हस्ताक्षर के साथ ही अपना नाम सुवाच्य अक्षरों में अंकित करें।
8. प्रत्येक केन्द्र के अन्त में अनुपस्थित अनुक्रमाणकों एवं अनुचित साधन के अनुक्रमाणकों को ड्राकेट से देखकर स्पष्ट उल्लेख करें।
9. पूर्ण/प्रतिपूर्ण के लिफाफे एवं उत्तरपुस्तिका यदि व्यक्तिगत तौर पर विश्वविद्यालय में जमा की जा रही है तो परीक्षक द्वारा यह कार्य कृपया
स्वतः सम्पादित किया जाय। अन्य माध्यम से भेजवाने पर गोपनीयता भंग होने अथवा फेर बदल होने की दशा में परीक्षक स्वतः जिम्मेदार होंगे।
10. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का बण्डल यदि समयावधि में जमा नहीं किया जाता है तो सम्पूर्ण पारिश्रमिक रोकने का निर्णय लिया जा
सकता है।
11. अनुचित साधन सम्बन्धी उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग से उसके ऊपर U.F.M. लिखकर वापस करें तथा इसका पूर्ण/प्रतिपूर्ण भी अलग
से भेजें, किसी भी दशा में अन्य उत्तरपुस्तिकाओं के साथ इसे सम्मिलित न करें।
12. समस्त परीक्षाओं के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा अध्यादेश द्वारा नियंत्रित होगी।
13. किसी शंका या कठिनाई के लिए कृपया मोबाइल नं. 99071-79779 में कुलसचिव या 94246-68364 में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
(गोपनीय) से सम्पर्क करें।

कुलसचिव/समन्वयक
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C. G.)

CONFIDENTIAL

Form,

Tel, No, 2262825

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, डॉ. भूनाल सिंह दास
भारत, जिला - एमर
 No. Ex/C _____ Dated, Raipur the 31-3-21

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -
B.A. Part - I - New Course - Foundation Course - Febr-2021
 Paper I - Hindi language carrying 75 marks
 at the next Annual Examination 2021

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below,

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK wherethere you are willing to accept the above appointment If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointments. In case you are unable to accept the appointment It is requested that all the papers sent herewith my be returned with your reply,

It is requested the Two question papers be prepared For those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination, The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version is all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.B.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharma, M.Pharma, B.Voc., B.P. Ed/M.P. Ed, LL.M., The question papers are to be set in strict compliances with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly Insured for Rs: 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends,

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSOFACTO, cease to be examiners,

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name'

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary,

NOTE Special attention is invited to the following :-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University,

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution,

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Dy. Regr. G. D. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures :-

1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same
2. Instructions for paper setter
3. Syllabus prescribed for the paper
4. Question paper of the last year Exam
5. Blank papers for writing the question paper.
6. Cover A & B for sending the question paper
7. Declaration form.

Note :- Please refer to the instructions here to before you set the paper

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

CONFIDENTIAL

Tel. No. 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, --- डा. मूवाज सिंह गुरु ---
 --- मुख्या, अमरा ---

No. Ex/C ----- Dated, Raipur the 6/4/2021

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

B.A./B.A. (Classics) (part-I) Examination - 2021
 Paper (C-2) (F-2) Hindi Language carrying 75 marks
 at the next Annual Examination 2021

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below,

I am to request you to let me know on the enclosed form (C-3) on or before A WEEK whetehere you are willing to accept the above appointment if no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply,

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers in accordance with enclosed Syllabus One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.B.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharma, M.Pharma, B.Voc., B.P. Ed/M.P. Ed, LL.M., The question papers are to be set in strict compliances with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured (or Rs. 100/- in double sealed covers sent herewith within 07 days of the date of this letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondences in this connection to the undersigned by name'

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following :-


(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned in acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to Contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 1500/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.1500/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully


 Dy. Regr./ O. S. D. (Conf.)
 for Registrar

Enclosures :-

- | | |
|---|---|
| 1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same | 3. Syllabus prescribed for the paper |
| 2. Instructions for paper setters | 5. Blank papers for writing the question paper. |
| 4. Question paper for the last year | 7. Declaration form. |
| 6. Cover A & B for sending the question paper | |

Note :- Please refer to the instructions here to before you set the paper



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2267802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक / अ.मंडल / अका / 2020

रायपुर, दिनांक 17/11/2020

786-26

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के अंतर्गत जंतुविज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. निरक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. परमिता दुबे, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर
2. डॉ. अश्विन अर निचत, शास. पीजी महा., बलार |
| 28 (2) (iii) | 1. निरक |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. स्वाति साहू, शास. महा., उत्तमपुर
2. श्रीमती संगीता बजारे, शास. महा., कोहका नेवरा |
| 28 (2) (v) | 1. श्री हित नारायण टंडन, शास. महा., देवगोंग
2. डॉ. रिचा टिकरिता, शास. दू.व. महिला महा., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. परमिता दुबे को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यालय अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक - 17/11/2020

दूरभाष 787 / अ.मंडल / अका / 2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लॉक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 2. संबंधित सदस्यों को
 3. संबंधित सचयक/गर्भ को
 4. स.कु.स परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय
 5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्व वि. वि. रायपुर को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही एवं अभिहित।

दिक अधिकारी (अका)

शासकीय जे. योगानन्दम् छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध)

क्रमांक ...100...../ स्वशासी / गोप / 201

दिनांक 1.0.DEC 2019

प्रति,

डॉ./प्रो. Y-2499 1999
अपिनाश निधित
शासकीय महाविद्यालय - भखारा

महोदय/महोदया,

आपको मूल्यांकन हेतु उत्तरपुस्तिकाओं का बंडल द्वारा भेजा जा रहा है। विवरण निम्नानुसार है :-

1. कोड नं. Y-1999 2. परीक्षा III Semester 3. विषय M.Sc. Zoology
4. प्रश्न पत्र II 5. उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 21
कृपया उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या के संबंध में अंतर/त्रुटि होने की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक को तत्काल सूचित करें।

जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल, अंकों के पर्ण/प्रतिपर्ण, पारिश्रमिक देयक सहित परीक्षा नियंत्रक को दिनों के भीतर भेजने की कृपा करें।

पारिश्रमिक देयक के साथ डाक एवं अन्य व्यय की रसीद अवश्य भेजें।
सहयोग की आकांक्षा के साथ।

संलग्न :

1. पर्ण/प्रतिपर्ण प्रपत्र
2. पर्ण/प्रतिपर्ण लिफाफा
3. पारिश्रमिक देयक प्रपत्र


परीक्षा नियंत्रक

शासकीय छत्तीसगढ़ स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.) 492001

फोन कार्या. : 2427126, निवास : 2442236

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

CONFIDENTIAL AND MOST URGENT

FORMAT 6

To,

Dr. Avinash Nichat
Govt. P. H. College Bhukhara

Bilaspur, Dated 21/1/2020

Code No. AH-1132

Dear Sir/madam,

1. I'm directed to inform you that Atal Bihari Vajpayee Vishw., Bilaspur has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code AH-1132 Subject/Paper Name/Title of paper of Exam code & Name

ZOOLOGY-I

(049) B. SC. PART-I (MATHS GROUP)

carrying (maximum marks) 050 and minimum passing marks .. of the Annual (Main)/ Semester/Supplementary Examination, ~~DEC. 2019~~ of Session ~~2018-19~~

- The theory/written part of the examination will commence on MAR-APR. 2020 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before .. 07 days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
- It is requested that ONE/TWO question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
- The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within 07 (SEVEN) DAYS to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) by your name with address/Institution/College/University.
- You are requested to keep your assignment strictly confidential and address all Correspondence in this connection to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee, Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) .

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- If son/dughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed RS. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

- Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
- Instruction for Examiner (s)
- Remuneratin Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
- Syllabus prescribed for the subject/paper.
- Declaration form.
- Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
- Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and IF tow paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
- send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Near Gandhi Chowk, Bilaspur (C.G.) Pin Code 495001

Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

Yours Faithfully

Controller of Examination

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

CONFIDENTIAL AND MOST URGENT

FORMAT 6

Bilaspur, Dated 21/1/2020

Code No. AH-1133

Dr. Avinash Nichat
Govt. P.H. College Bhakhara

Dear Sir/madam,

1. I'm directed to inform you that Atal Bihari Vajpayee Vishw., Bilaspur has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code **AH-1133** Subject/Paper Name/Title of paper **ZOOLOGY - II** of Exam code & Name **(049) B. SC. PART-I (MATHS GROUP)** carrying (maximum marks) **050** and minimum passing marks .. of the Annual (Main)/Semester/Supplementary Examination, **DEC 2019** of Session **2018-19**
2. The theory/written part of the examination will commence on **MAR-APR 2020** and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
3. I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before **02** days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
4. It is requested that **ONE/TWO** question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
5. The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed/covers (sent herewith) duly sealed by both the end within **07 (SEVEN) DAYS** to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) by your name with address/Institution/College/University.
6. You are requested to keep your assignment Strictly confidential and address all Correspondence in this connection to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee, Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- A. If son/dughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- B. The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- C. The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed RS. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

1. Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
2. Instruction for Examiner (s)
3. Remuneratin Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
4. Syllabus prescribed for the subject/paper.
5. Declaration form.
6. Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
7. Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and IF tow paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
8. send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Near Gandhi Chowk, Bilaspur (C.G.) Pin Code 495001

Yours Faithfully

Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

CONFIDENTIAL AND MOST URGENT

FORMAT 6

To,

Dr. Avinash Nishant
Govt. P.W. College
Bhalkhara

Bilaspur, Dated 21/11/2020

Code No. AH-1114

Dear Sir/madam,

1. I'm directed to inform you that Atal Bihari Vajpayee Vishw., Bilaspur has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code **AH-1114** Subject/Paper Name/Title of paper **MICROBIOLOGY - I** of Exam code & Name **(049) B. SC. PART-I (MATHS GROUP)** carrying (maximum marks) **050** and minimum passing marks .. of the Annual (Main)/ Semester/Supplementary Examination, ~~DEC-2019~~ of Session ~~2018-19~~ ✓
2. The theory/written part of the examination will commence on **MAR-APR 2020** and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
3. I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before **02** days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
4. It is requested that **ONE/TWO** question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
5. The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within **07 (SEVEN) DAYS** to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) by your name with address/Institution/College/University.
6. You are requested to keep your assignment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee, Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- A. If son/daughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- B. The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- C. The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed RS. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

1. Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
2. Instruction for Examiner (s)
3. Remuneratin Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
4. Syllabus prescribed for the subject/paper.
5. Declaration form.
6. Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
7. Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and IF tow paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
8. send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Near Gandhi Chowk, Bilaspur (C.G.) Pin Code 495001

Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

Yours Faithfully
Marty
Controller of Examination

To,

Dr. Avinash Nishat
Govt. P.G. College
Bhakhara

Bilaspur, Dated 21/1/2020

Code No. AH-1115

Dear Sir/madam,

- I'm directed to inform you that Atal Bihari Vajpayee Vishw., Bilaspur has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code **AH-1115** Subject/Paper Name/Title of paper of Exam code & Name **MICROBIOLOGY (049) B. SC. PART-I (MATHS GROUP)** carrying (maximum marks) **050** and minimum passing marks .. of the Annual (Main)/ Semester/Supplementary Examination, ~~DEC. 2019~~ of Session ~~2018-19~~ **MAR-APR 2020** and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevent papers on the subject as per list given below.
- I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before ~~02~~ days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
- It is requested that ~~ONE/TWO~~ question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
- The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within **07 (SEVEN) DAYS** to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) by your name with address/Institution/College/University.
- You are requested to keep your assignment Strictly confidential and address all Correspondence in this connection to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee, Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- If son/dughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed RS. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

- Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
- Instruction for Examiner (s)
- Remuneratin Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
- Syllabus prescribed for the subject/paper.
- Declaration form.
- Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
- Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and IF tow paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
- send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Near Gandhi Chowk, Bilaspur (C.G.) Pin Code 495001

Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

Yours Faithfully
Marey
Controller of Examination

To,

Dr. Anshu Nishant
Govt. P. G. College
Bhatkhera

Bilaspur, Dated 21/11/2020

Code No. AH-1124

Dear Sir/madam,

1. I'm directed to inform you that Atal Bihari Vajpayee Vishw., Bilaspur has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code **AH-1124** Subject/Paper Name/Title of paper **TASAR TECHNOLOGY-I** of Exam code & Name **(049) B. SC. PART-I (MATHS GROUP)** carrying (maximum marks) **050** and minimum passing marks .. of the Annual (Main)/Semester/Supplementary Examination, ~~DEC. 2019~~ of Session ~~2018-19~~ **MAR-APR. 2020** and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
2. The theory/written part of the examination will commence on **MAR-APR. 2020** and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
3. I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclose form on or before **02** days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
4. It is requested that **ONE/TWO** question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each unit/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (s) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (s) of M.Sc. Examination.
5. The question paper (s) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within **07 (SEVEN) DAYS** to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) by your name with address/Institution/College/University.
6. You are requested to keep your assignment Strictly confidential and address all Correspondence in this connection to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee, Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- A. If son/dughter/wife/husband or any close relation of dependent of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is likely to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- B. The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- C. The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed Rs. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

1. Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
2. Instruction for Examiner (s)
3. Remuneratin Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
4. Syllabus prescribed for the subject/paper.
5. Declaration form.
6. Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
7. Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I and IF tow paper (s) are set by the Examiner then both Cover/Envelope marked as ORIGINAL-I if two and ORIGINAL-II
8. send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration bill INNER COVER/ENVELOPE, (S) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Near Gandhi Chowk, Bilaspur (C.G.) Pin Code 495001

Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

Yours Faithfully
[Signature]
Controller of Examination

Bilaspur, Dated 21/11/2020

Code No. AH-1125

Dr. Avinash Mishra
M.A. - P.H. College
Bhalkharya

Dear Sir/Madam,

1. I'm directed to inform you that Atal Bihari Vajpayee Vishw., Bilaspur has appointed as you to be the Examiner of the subject/Paper Code **AH-1125** Subject/Paper Name/Title or paper of Exam code & Name **TASAR TECHNOLOGY - II (049) B. SC. PART-I (MATHS GROUP)** carrying (maximum marks) **050** and minimum passing marks .. of the Annual (Main)/Semester/Supplementary Examination, ~~DEC-2019~~ of Session ~~2018-19~~.
2. The theory/written part of the examination will commence on **MON-APR. 2020** and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers on the subject as per list given below.
3. I shall be thankful if you would kindly send your consent on the enclosed form on or before **02** days. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the papers sent herewith may please be returned with your reply.
4. It is requested that **ONE/2** question paper(s) be prepared in accordance with the enclosed syllabus. For those who are requested to set two question papers, one of the question papers will be the Vishwavidyalaya for the Nov./Dec. or Jan./Feb. Examination and the other for the April/May or June/July Examination under the semester system or one of the question papers will be used by the Vishwavidyalaya for the March/April Examination and other for the Supplementary Examination by the Examiner. It may kindly be noted that English/Hindi version of each question of each part/section is to be given immediately below the Hindi/English version of question in subject/paper (a) except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit, Urdu and for all subject/paper (a) of M.Sc. Examination.
5. The question paper (a) are to be set in strict compliance with the syllabus and instructions sent herewith and be delivered in person or sent through registered post (insured for Rs. 100/- INR on double sealed covers (sent herewith) duly sealed by both the end within **07 (SEVEN) DAYS** to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.) by your name with address/institution/College/University.
6. You are requested to keep your assignment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the Controller of Examination of Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

NOTE:- SPECIAL ATTENTION IS INVITED TO THE FOLLOWING

- A. If son/daughter/wife/husband or any close relation or dependant of any person who has been offered appointment as examiner, has obtained admission in the subject or is liable to appear at examination in the subject for which the appointment has been offered, he has requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith.
- B. The rate of remuneration prescribed for paper setting, evaluation of answer scripts may please be seen remuneration bill attached herewith.
- C. The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a financial year shall not exceed Rs. 50,000/- INR. In case your remuneration for acting as examiner exceed Rs. 50,000/- INR, the excess amount shall be credited to the University account.

Enclosures/Attachments:-

1. Form of Acceptance with a cover/envelope marked as ACCEPTANCE.
2. Instruction for Examiner (a)
3. Remuneration Bill (all relevant fields must be filled by Examiner)
4. Syllabus prescribed for the subject/paper.
5. Declaration form.
6. Question paper of the last year/semester examination as SAMPLE FOR SCHEME OF EXAMINATION
7. Inner Cover/Envelope for Question Paper. If one paper is set by the Examiner then use both Yellow Cover/Envelope marked as ORIGINAL I and IF two paper (a) are set by the Examiner then both cover/envelope marked as ORIGINAL-I and ORIGINAL-II
8. send ACCEPTANCE, DECLARATION, remuneration Bill INNER COVER/ENVELOPE (a) OF QUESTION PAPER in outer cover/envelope and send to the Registrar (Confidential)/Controller of Examination, Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Old High Court Building, Near Gandhi Chowk, Bilaspur (C.G.) Pin Code 491001

Note: Please send question paper according to syllabus & Marks Scheme

M. K. Mishra
Controller of Examination



(CONFIDENTIAL & MOST URGENT) Code No. KJ-502
BASTAR VISHWAVIDYALAY JAGDALPUR (C.G.) 494001
Mail- confidentialbvvjdp@gmail.com (Office- 07782229215)

To

Dated, Jagdalpur the 04/05/2020

PROF./DR. ~~K.K. Harshit~~
DEPTT. OF ~~D.B. Gita College Raipur~~
GOVT. ~~Govt. College Bhalaha.~~

Dr. Anil Kumar Mishra
Govt. College Bhalaha.

Dear Sir/ Madam,

I am directed to inform you that Bastar Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner / one of the valuer's for evaluation of answer scripts of the " **Characteristics Classification & Types** " Paper **First** carrying M.Sc. ZOOLOGY -IV SEMESTER Marks of the 80 Examination 2020.

1-The written part of the examination will commence on JUNE -JULY 2020 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers.

2-I shall be thankful if you would kindly send your consent after Receiving the envelope. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the Format sent herewith may please be returned with your reply.

3- It is requested that one question paper be prepared in accordance with enclosed syllabus for JUNE - JULY 2020 Semester Examination . It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately bellow Hindi version except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit .

4- The question paper is to be set in strict compliance with the sent herewith and be delivered in person or sent through Registered /Speed post in double sealed covers (sent herewith) duly sealed at both the ends within 15 days of this letter to the undersigned by the name.

5-You are requested to keep your appointment STRICTLY CONFIDENTIAL and address all correspondence in this connection to the undersigned by name .

Note: Special attention is invited the following:-

- (a) If son /daughter/wife /Husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained admission in the subject or is likely to appear at the examination in the subject for which the appointment has been offered ,he is requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith .
- (b) The rate or remuneration prescribed for paper setting/ evaluation of answer script may please be seen in the Remuneration bill attached.
- (c) The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a year shall not excess Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceed Rs. 50,000/- the excess amount shall be credited to the university account.

Yours Faithfully

[Signature]
Asstt. Registrar (Confidential)
Mo. No.-9131813944

Enclosures:-

- 1.Format for setting Question paper (A).
- 2.Syllabus prescribed for the paper.
- 3.Question paper of the last year.
- 4.Cover for sending the question paper.

(CONFIDENTIAL & MOST URGENT)

Code No. KJ- 487

BASTAR VISHWAVIDYALAY JAGDALPUR (C.G.) 494001

Mail- confidentialbvvjdp@gmail.com (Office- 07782229215)

To

Dated, Jagdalpur the 29/03/2020

Dr. Aninash Mishra

Govt. College Bhakhara

Dear Sir/ Madam,

I am directed to inform you that Bastar Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner / one of the valuer's for evaluation of answer scripts of the Structure & Function of paper second carrying 80 Marks of the M.Sc. Examination 2020. Invertebrates

1-The written part of the examination will commence on JUNE -JULY 2020 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers.

2-I shall be thankful if you would kindly send your consent after Receiving the envelope. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the Format sent herewith may please be returned with your reply.

3- It is requested that one question paper be prepared in accordance with enclosed syllabus for JUNE - JULY 2020 Semester Examination . It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately bellow Hindi version except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit .

4- The question paper is to be set in strict compliance with the sent herewith and be delivered in person or sent through Registered /Speed post in double sealed covers (sent herewith) duly sealed at both the ends within 15 days of this letter to the undersigned by the name.

5-You are requested to keep your appointment STRICTLY CONFIDENTIAL and address all correspondence in this connection to the undersigned by name .

Note: Special attention is invited the following:-

- If son /daughter/wife /Husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained admission in the subject or is likely to appear at the examination in the subject for which the appointment has been offered ,he is requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith .
- The rate or remuneration prescribed for paper setting/ evaluation of answer script may please be seen in the Remuneration bill attached.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a year shall not excess Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceed Rs. 50,000/- the excess amount shall be credited to the university account.

Yours Faithfully

dev
Asstt. Registrar (Confidential)
Mo. No. 9131813944

Enclosures:-

- 1.Format for setting Question paper (A).
- 2.Syllabus prescribed for the paper.
- 3.Question paper of the last year.
- 4.Cover for sending the question paper.

(CONFIDENTIAL & MOST URGENT)

Code No. KJ - ABC

BASTAR VISHWAVIDYALAY JAGDALPUR (C.G.) 494001

Mail- confidentialbvvdjdp@gmail.com (Office- 07782229215)

To

Dated, Jagdalpur the 20/05/2020

Dr. Avinash Nishat

Govt. College Bhalkhara

Dear Sir/ Madam,

I am directed to inform you that Bastar Vishwavidyalaya has appointed you to be the paper setter and examiner / one of the valuer's for evaluation of answer scripts of the Bio-systematics & Taxonomy paper First carrying 80 Marks of the M.Sc. Examination 2020.

1-The written part of the examination will commence on JUNE -JULY 2020 and it is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept appointment. I have enclosed herewith all the relevant papers.

2-I shall be thankful if you would kindly send your consent after Receiving the envelope. In case you are unable to accept the appointment, it is requested that all the Format sent herewith may please be returned with your reply.

3- It is requested that one question paper be prepared in accordance with enclosed syllabus for JUNE - JULY 2020 Semester Examination . It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately bellow Hindi version except language paper i.e. Hindi, English, Sanskrit .

4- The question paper is to be set in strict compliance with the sent herewith and be delivered in person or sent through Registered /Speed post in double sealed covers (sent herewith) duly sealed at both the ends within 15 days of this letter to the undersigned by the name.

5-You are requested to keep your appointment STRICTLY CONFIDENTIAL and address all correspondence in this connection to the undersigned by name .

Note: Special attention is invited the following:-

- If son /daughter/wife /Husband or any near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained admission in the subject or is likely to appear at the examination in the subject for which the appointment has been offered ,he is requested to inform the undersigned and return the papers sent herewith .
- The rate or remuneration prescribed for paper setting/ evaluation of answer script may please be seen in the Remuneration bill attached.
- The total remuneration for all the examination which a person will entitled to get in a year shall not excess Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceed Rs. 50,000/- the excess amount shall be credited to the university account.

Yours Faithfully

Devn
Asstt. Registrar(Confidential)
Mo. No. 9131813944

Enclosures:-

- 1.Format for setting Question paper (A).
- 2.Syllabus prescribed for the paper.
- 3.Question paper of the last year.
- 4.Cover for sending the question paper.

Form No. C-1

Code No.

CONFIDENTIAL

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C.G.)

Tel, No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Dr. Avinash Nishat
ChakrabortyNo. Ex/C ----- Dated, Raipur the 31/1/20

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -----

Paper B.Sc. part-I (old course) Zoology... Cell Biology and Invertebrates
First carrying 50 marks
at the next Annual Examination 2020

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight presunight that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK wherethere you are willing to accept the above appointment if no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment It is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply,

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus One of the question papers will be used by the University for the March/April Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter if any kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version is all subject excepting languages for all the examination leading to B. A-B. Com., B. Sc., B. Ed., LL. B.; M. B. B. Sc., B. A., M. S. B. H. M. S. B. A., LL. B., B. D. S., B. B. A. M., Com., M. B. A., LL. M. The question papers are to be set in strict compliances with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of this letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSOPACTIO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondences in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following:-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solutions.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund:-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 1500/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.1500/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Dr. Regr./ D. S. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures:-

1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same
2. Instructions for paper setters
3. Syllabus prescribed for the paper
4. Question paper for the last year
5. Blank papers for writing the question paper.
6. Cover B & B for sending the question paper
7. Declaration form.

Note :- Please refer to the Instructions here to before you set the paper

Pt. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY RAIPUR (C. G.)

Tel, No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To,

Dr. Avinash Nishat
Bhalehara

No. Ex/C

Dated, Raipur the

2/5/20

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

M.Sc. Zoology II Sem. Exam May-Jun-2020

Paper III - Development carrying 80 marks

at the next Biology Examination 20 20

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK whereshere you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two (one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed syllabus. One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.S.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharma, M.Pharma, B.Voc., B.P., Ed/M.P., Ed. LL.M. The question papers are to be set in strict compliances with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following :-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers' Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Dy. Regr. O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures :-

1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for retaining the same
2. Instructions for paper setters
3. Syllabus prescribed for the paper
4. Question paper of the last year Exam
5. Blank papers for writing the question paper.
6. Cover A & B for sending the question paper
7. Declaration form.

Note :- Please refer to the instructions here to before you set the paper

CONFIDENTIAL

Pt. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY RAIPUR (C. G.)

Tel. No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Dr. Avishankar NicholBalekhar

No. Ex/C ----- Dated, Raipur the -----

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

M. Sc. II Sem. Zoology ATUT Exam Dec/Jan 2021

Paper III - Development carrying ----- 80 marks

at the next Biology ----- Examination 20 2 1

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presumably that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK wherethere you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed syllabus. One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.S.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharm., M.Pharm., B.Voc., B.P.Ed./M.P.Ed., LL.M. The question papers are to be set in strict compliances with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSOFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following:-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment. and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs. 50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Dr. Regr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures :-

- | | |
|---|---|
| 1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same | 3. Syllabus prescribed for the paper |
| 2. Instructions for paper setters | 5. Blank papers for writing the question papers |
| 4. Question paper of the last year Exam | 7. Declaration form. |
| 6. Cover B & B for sending the question paper | |

Note :- Please refer to the instructions here to before you set the paper

Form No. C-1

Code No.

CONFIDENTIAL

Pt. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY RAIPUR (C. G.)

Tel, No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To,

Dr. Avinash Nishat
Bhattacharya

No. Ex/C

Dated, Raipur the

4/5/20

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer books in -

B. Sc. (part-2) (New course) Zoology (Cell Biology and New
6 marks)

Paper Short carrying 50 marks

at the next Annual Examination 2020

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presumably that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C-3) on or before A WEEK wherethere you are willing to accept the above appointment if no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two/one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It is kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., & B.A., M.Com., M.B.A., M. Ed., B. Pharma, M. Pharma, B.Vec., B.P. Ed/M.F. Ed. LL. M. The question papers are to be set in strict compliances with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent herewith, within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSOFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following:-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to Contribution to Teachers Benevolent fund:-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs. 50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

By, Regr./ O. S. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures:-

1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same
2. Instructions for paper setters
3. Syllabus prescribed for the paper
4. Question paper of the last year Exam
5. Blank Papers for writing the question papers
6. Cover S & B for sending the question paper
7. Declaration form.

Note :- Please refer to the instructions here to before you set the paper

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C. G.)

CONFIDENTIAL

Tel, No, 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Dr. Avinash NishatBhakhraNo. Ex/O ----- Dated, Raipur the 31/5/21

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

MSc (Second Sem) Zoology (ATKT)
Second General Physiology and Endocrinology
 Paper ----- carrying ----- marks
 at the next June Examination 2021

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C 3) on or before A WEEK where there you are willing to accept the above appointment if no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the two (one question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.B.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharm., M.Pharm., B.Voc., B.P., Ed/M.P., Ed., LL.M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSOFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following :-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned as acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to Contribution to Teachers Benevolent fund :-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 50,000/- in case your remuneration for actions as an examiner exceeds Rs.50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Dy. Regr., D. S. D. (Conf.)
for Registrar

Enclosures :-

- | | |
|---|---|
| 1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same | 3. Syllabus prescribed for the paper |
| 2. Instructions for paper setters | 5. Blank papers for writing the question papers |
| 4. Question paper of the last year Exam. | 7. Declaration form. |
| 6. Cover A & B for sending the question paper | |

Note :- Please refer to the instructions here to before you set the paper

शासकीय दूर.महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

(पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध)

क्रमांक 02 / गोपनीय / 2021

दिनांक 14.8.21

Dr. Avinash Nishal

कोड नं. 200402/21

महोदय / महोदया

Govt. P.G. College Bhakhara

महाविद्यालय द्वारा आपको वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा हेतु परीक्षक नियुक्त किया गया है।

आप कक्षा M.Sc.D. Sem. विषय Zoology प्रश्नपत्र II

प्रश्न पत्र शीर्षक Immunology & parasitism

का 01 सेट बनाकर 07 दिनों के अंदर भेजने की कृपा करेंगे।

इस पत्र के साथ संबंधित पाठ्यक्रम तथा गतवर्ष का प्रश्नपत्र एवं संशोधित नियम नमूनार्थ संलग्न हैं। कृपया पृष्ठांकित सूचना का अवलोकन करें।

for h

(डॉ. अभया जोगलेकर)

परीक्षा नियंत्रक

शासकीय दूर.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)

मो. 84252-03225

पत्र व्यवहार क्रो. पता

परीक्षा नियंत्रक

स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ

शासकीय दूर.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)। पिन-492001

संपर्क हेतु फोन नं. 0771-2229248

PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR (C. G.)

Tel. No. 2262825

Form,

The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C. G.)

To, Dr. Avinash NichalBhakharaNo. Ex/O _____ Dated, Raipur the 31/8/21

Dear Sir/Madam,

I am directed to inform you that Pt. Ravishankar Shukla University, has appointed you to be paper setter and examiner/one of the valuers of answer - books in -

M.Sc. (Second Sem) (ATKT) Zoology
Third Development Biology carrying _____ marks
 at the next June Examination 2021

The written part of the examination will commence in the month of MARCH and is expected to conclude in about a fortnight. Presuming that you are prepared to accept the appointment I enclose herewith all the relevant papers on subject as per list given below.

I am to request you to let me know on the enclosed form (C-3) on or before A WEEK whether you are willing to accept the above appointment. If no reply is received by the above date, I shall conclude that it is not possible for you to accept the appointment. In case you are unable to accept the appointment it is requested that all the papers sent herewith may be returned with your reply.

It is requested the (two question papers be prepared for those who are requested to set Two Question Papers) in accordance with enclosed Syllabus. One of the question papers will be used by the University for the March/April/Dec/May/June Examination and the other for the Supplementary Examination. The question papers should not be marked as Annual or Supplementary by the paper-setter. It may kindly be noted that English version of each question is to given immediately below the Hindi version in all subject excepting languages for all the examination leading to B.A., B.Com., B.Sc., B.C.A., B.Lib., LL.B., B.A., LL.B., B.B.A., M.Com., M.B.A., M.Ed., B.Pharm., M.Pharm., B.Voc., B.P.Ed./M.P.Ed., LL.M. The question papers are to be set in strict compliance with instructions set herewith and be delivered in person or sent through Registered post duly insured for Rs. 100/- in double sealed covers sent (herewith) within 07 days of the date of the letter in the ENCLOSED ENVELOPES (Cover B) the covers should be sealed at both ends.

Examiners whose question paper are not received by the Registrar within the time fixed will IPSONFACTO, cease to be examiners.

You are requested to keep your appointment strictly confidential and address all correspondence in this connection to the undersigned by name.

I shall be glad to furnish you such other information as may be found necessary.

NOTE Special attention is invited to the following:-

(1) If a child, near relation or dependent of any person who has been offered appointment as examiner has obtained or propose to obtain admission to examination in the subject for which the appointment has been offered, he is requested to inform the undersigned on acceptance of appointment, and such cases it is not permitted by the University.

(2) The question paper on Mathematics should be sent alongwith its solution.

(3) Clause 3 of the Acceptance Form relating to contribution to Teachers Benevolent fund:-

The total remunerations for all the examinations which a person will be entitled to get in a year, shall not exceeds Rs. 50,000/- in case your remuneration for acting as an examiner exceeds Rs.50,000/- the excess amount shall be credited to the Teacher's Benevolent Fund

Your faithfully

Dy. Regr./ O. S. D (Conf.)
for Registrar

Enclosures:-

- | | |
|---|---|
| 1. Form of acceptance of appointment (C-3) and a cover for returning the same | 3. Syllabus prescribed for the paper |
| 2. Instructions for paper setters | 5. Blank papers for writing the question papers |
| 4. Question paper of the last year Exam. | 7. Declaration form. |
| 6. Cover B & B for sending the question paper | |

Note:- Please refer to the instructions here to before you set the paper.